

केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान-परिसर, मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)

“बीज आलू उत्पादन एवं विपणन” विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

इस परिसर पर राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमानखेड़ा, लखनऊ (उ.प्र.) द्वारा नेशनल सब मिशन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेन्ट (आत्मा) योजनान्तर्गत प्रायोजित “बीज आलू उत्पादन एवं विपणन” विषय पर एक पाँच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन दिनांक 27-31 अगस्त, 2018 की अवधि में किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया एवं इटावा जनपदों से कुल 30 ब्लॉक तकनीकी प्रबन्धक, सहायक तकनीकी प्रबन्धक, आचीवर कृषक, सहयोगी कृषक और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। दिनांक 27 अगस्त, 2018 को आरंभ हुए इस प्रशिक्षण सत्र में केंद्र के विभिन्न विषय-विशेषज्ञों ने “बीज आलू उत्पादन एवं विपणन” से संबन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों- आलू की उन्नत प्रजातियों, सामान्य, अगेती एवं प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त प्रजातियों की जानकारी, आलू बीज फसल की सस्य क्रियाएँ, आधुनिक सिंचाई के साधनों, उर्वरकों का संतुलित प्रयोग, बीज आलू उत्पादन, भंडारण एवं विपणन आदि विषयों पर परिसर के विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान दिये गए। दिनांक 31 अगस्त, 2018 को प्रशिक्षण सत्र का समापन समारोह का आयोजन किया गया, समारोह के मुख्य अतिथि डॉ एस के सचान, निदेशक, प्रसार निदेशालय, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, मेरठ रहे। परिसर के संयुक्त निदेशक डॉ मनोज कुमार ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और प्रशिक्षण एवं परिसर पर संचालित अनुसंधानिक गतिविधियों के विषय में जानकारी दी। अपने भाषण में मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में प्राप्त आलू बीज उत्पादन के तकनीकी ज्ञान को अपने क्षेत्रों एवं किसानों तक पहुँचाने और गुणवत्तायुक्त आलू का उत्पादन करके किसानों की लागत कम करते हुए उनकी आमदनी को बढ़ाने का आह्वान किया। समारोह के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

